



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 27—सितम्बर 2, 2011 (भाद्रपद 5, 1933)

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 27—SEPTEMBER 2, 2011 (BHADRA 5, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 2011

सं. आरएस/3/1/(1)/2011/64-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत सहायक निदेशक श्री गिरिजा शंकर प्रसाद को 4 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में तदर्थ आधार पर 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 7,600/- रुपए के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ उप-निदेशक के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अध्वधीन होगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ सहायक निदेशक के ग्रेड में नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है :--

1. श्री गौतम कुमार
2. श्री समीर कपूर
3. श्री पी. सी. महाराणा

2. उपर्युक्त नियुक्तियां रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अध्वधीन होगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस/3/1/(1)/2011/65-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में विधायी/समिति/नयाचार/अधिशासी अधिकारी के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों को 31 जुलाई, 2011

दिनांक 5 अगस्त 2011

सं. आरएस 46/2010/67-कार्मिक--श्री आर. डी. इन्दौरा को 5 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न से राज्य सभा सचिवालय टेलीविजन में लेखा अधिकारी

के रूप में पुनर्नियोजन के आधार पर वेतन बैंड-3 में 15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 5,400/- रुपए तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ तीन वर्षों के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 10 अगस्त 2011

सं. आरएस/3/4/1/2011/68-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत वैयक्तिक सहायक श्री रणवीर सिंह को 1 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 5,400/- रुपए के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ निजी सचिव के ग्रेड में स्व-स्थाने आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति दिनांक 26 नवम्बर, 2009 के आर एण्ड सी एस आदेश सं. 5/2009 द्वारा अधिसूचित स्व-स्थाने पदोन्नति योजना में अन्तर्विष्ट उपबंधों द्वारा नियंत्रित होगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त 2011

सं. ए-12025/9/2009-प्रशासन-1--योजना आयोग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2011 के अनुक्रम में राष्ट्रपति, डॉ. डी. भारद्वाज, संयुक्त सलाहकार (आई ई एम) की तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 3.8.2011 से आगे दिनांक 30.9.2011 तक योजना आयोग में पे बैंड-4, रुपए 37,400--67,000/- + 8,700/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में, तदर्थ नियुक्ति नियमित प्रबंधन तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. बाकी सारी शर्तें वही होंगी जो कि योजना आयोग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त, 2010 में निहित हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

सं. ए-12025/6/2011-प्रशासन-1--सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से वापसी के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, डॉ. पीतम सिंह, नियमित उपसलाहकार (परियोजना मूल्यांकन) को योजना आयोग में पे बैंड-4, रुपए 37,400--67,000/- + 8,700/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में संयुक्त सलाहकार (शिक्षा) के पद पर तदर्थ नियुक्ति दिनांक 5.8.2011 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष तक अथवा पद के नियमित रूप से भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक के लिए अथवा इनमें से जो भी पहले हो, करते हैं।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि तदर्थ नियुक्ति उपर्युक्त अधिकारी को संयुक्त सलाहकार के पद पर नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता और न ही संयुक्त सलाहकार के पद पर उनकी इस

तदर्थ नियुक्ति की अवधि को संयुक्त सलाहकार ग्रेड में वरीयता के लिए अथवा उच्च स्तर पर प्रोन्नति के लिए गिना जाएगा।

जी. राजीव, अवर सचिव

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 अगस्त 2011

सं. ए-19011/78/2011-यू आई डी ए आई--भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 26.07.2011 के पत्र सं. ए-12013/21/2010-यू आई डी ए आई और रक्षा मंत्रालय के दिनांक 1.8.2011 के पत्र सं. ए-77003/एन के पी/डी जी क्यू (ए)/सी ए ओ/ए-3(बी) के अनुसरण में श्री नीरज कुमार पाठक ने मुख्यालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली, में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड + 6,600/- रुपए के वेतन ग्रेड में, प्रतिनियुक्ति आधार पर, तीन वर्षों की अवधि हेतु अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, उप-निदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

अरुण कुमार सरकार, उप-निदेशक (स्था.)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2011

सं. ए-12034/1/2009-प्रशा.-IV (वि.का.) खंड-III--डॉ. एम. वीरप्पा मोइली के दिनांक 13.07.2011 को विधि और न्याय मंत्री के पद का कार्यभार छोड़ दिए जाने पर और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 2.8.1979 के का.ज्ञा.सं. 10/20/97-सीएस-II में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, भूतपूर्व विधि और न्याय मंत्री (डॉ. एम. वीरप्पा मोइली) के निजी सचिव श्री राकेश सिंह, भा.प्र.से. (कर्नाटक:89) को दिनांक 13.7.2011 से 11.8.2011 तक की 30 दिन की समापन अवधि प्रदान की जाती है।

2. श्री राकेश सिंह, भा.प्र.से. (कर्नाटक:89) की सेवाएं दिनांक 12.8.2011 (पूर्वाह्न) से कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग को सौंपी जाती हैं।

आशा सोय, अवर सचिव

दिनांक 29 जुलाई 2011

सं. ए-32013/4/2006-प्रशा.-IV (वि.का.)--इस विभाग की दिनांक 13.12.2010 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.7.2011 के का.ज्ञा.सं. 20/31/2010-सीएस-II(ए) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, नियमित निजी सचिव श्रीमती जसबीर बेदी की विधि और न्याय मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा संवर्ग में नियमित रिक्ति के स्थान पर प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि को दिनांक 30.9.2011 तक अथवा नियमित प्रधान निजी सचिव के उपलब्ध होने तक, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति के आधार पर वे प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियमित प्रोन्नति का कोई दावा नहीं कर सकेंगी और न ही उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई उक्त सेवा ग्रेड में वरिष्ठता के लिए या अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए गिनी जाएगी।

आशा सोटा, अवर सचिव

सं. ए-32013/3/2006-प्रशा. IV (वि.का.)--राष्ट्रपति, शहरी विकास मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा संवर्ग की नियमित प्रधान निजी सचिव सुश्री कविता कुंद्रा को दिनांक 7.7.2011 (अपराह्न) से विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा संवर्ग में वेतन बैंड पीबी-3, रु. 15,600--39,100/- में रु. 7,600/- ग्रेड वेतन सहित तदर्थ आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1.6.2011 के का.ज्ञा. सं. 2/2/2011-सीएस-II (ए) के अनुसार, उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है और दिनांक 30.9.2011 तक की अवधि अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए है तथा इससे सुश्री कविता कुंद्रा को ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

आशा सोटा, अवर सचिव

सं. ए-32013/4/2006-प्रशा.-IV (वि.का.) खंड-II--राष्ट्रपति, संबंधित संवर्गों के निम्नलिखित नियमित निजी सचिवों को उनके नामों के समक्ष दर्शाई गई तारीख से इस विभाग में वेतन बैंड पीबी-3, रु. 15,600--39,100/- में रु. 6,600/- ग्रेड वेतन सहित तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	किस संवर्ग के हैं	इस विभाग में कार्यग्रहण करने की तारीख
1.	श्री एस.के. पाढ़ी	वस्त्र मंत्रालय	22.07.2011
2.	श्री प्रवीण चंद्र गुराह	वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग	08.07.2011

2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.3.2011 और 30.5.2011 के आदेश सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए) के अनुसार, उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है और दिनांक 30.9.2011 तक की अवधि अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए है तथा इससे उन्हें ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

आशा सोटा, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 2011

सं. 13017/26/2009-अ.भा.से.-I--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नागालैंड, असम और मेघालय सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, सुश्री पूजा पाण्डे, भा.प्र.से. (नागालैंड:08) का डॉ. ब्रह्म देव राम तिवारी, भा.प्र.से. (असम, मेघालय:06) के साथ विवाह होने के आधार पर, नागालैंड संवर्ग से असम-मेघालय संवर्ग (मेघालय खंड) में स्थानांतरण करती है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 13017/19/2011-अ.भा.से.-I--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राजस्थान सरकार और गृह मंत्रालय की सहमति से केन्द्र सरकार, सुश्री शिल्पा शिन्दे, भा.प्र.से. (राज.:06) का श्री सचिन शिन्दे, भा.प्र.से. (एजीएमयूटी:08) के साथ विवाह होने के आधार पर, राजस्थान संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग में स्थानांतरण करती है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

दिनांक 10 अगस्त 2011

सं. 13017/27/2010-अ.भा.से.-I--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्नाटक और पंजाब सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, सुश्री खुशबू गोयल, भा.प्र.से. (कर्नाटक:08) का कर्नाटक संवर्ग से पंजाब संवर्ग में कार्यभार ग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंतरसंवर्ग प्रतिनियुक्ति का एतद्वारा अनुमोदन करती है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त 2011

सं. 14012/13/2011-अ.भा.से.(III)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एजीएमयूटी संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से नियमित करती है :--

क्रम सं.	नाम	बैच	स्थायी करने की तारीख
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	अभिषेक देव	2007	18.08.2009
2.	अभ्यंकर अमेया अजित	2007	18.08.2009

1	2	3	4
3.	जवाहर पी.	2007	18.08.2009
4.	जूही मुखर्जी (सुश्री)	2007	18.08.2009
5.	नीला मोहानन (सुश्री)	2007	18.08.2009
6.	उदित प्रकाश	2007	18.08.2009

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

सं. 14013/07/2011-अ.भा.से.-III--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तिथि(यों) से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करती हैं :--

क्रम सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
	सर्वश्री		
1.	एम. एस. परस्ते	2000	03.05.2007
2.	एस. के. जायसवाल	2000	03.05.2007
3.	ओमेगा इयूनीज़ टोप्पो (सुश्री)	2000	03.05.2007
4.	जेवियर टिंगा	2000	03.05.2007
5.	अशोक कुमार अग्रवाल	2000	03.05.2007
6.	नवल सिंह मांडवी	2000	03.05.2007
7.	देवी दयाल सिंह	2000	03.05.2007
8.	एस. एल. रात्रे	2000	03.05.2007
9.	एस. पी. शौरी	2000	03.05.2007
10.	एस. आर. ब्राह्मणे	2000	03.05.2007
11.	त्रिलोक चन्द महावर	2000	23.02.2008
12.	राम सिंह ठाकुर	2000	23.02.2008
13.	निर्मल कुमार खाखा	2000	23.02.2008
14.	राम सिंह ठाकुर	2000	23.02.2008
15.	राजपाल सिंह त्यागी	2001	27.12.2008
16.	ब्रजेश चन्द्र मिश्रा	2002	10.10.2009
17.	आलोक अवस्थी	2002	14.03.2008

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 अगस्त 2011

सं. ए-22012/1/2010-प्र.सु.(प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' को उनके सामने दर्शाई गई तारीखों से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क एवं ख" (विलयित) के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्रीमती सरोज रवि गिरोट	15.03.2011
2.	श्रीमती रेणुका सक्सेना	01.04.2011
3.	श्रीमती नरेश साहनी	27.05.2011
4.	श्री देवेन्द्र सत्ती	31.05.2011
5.	श्री कशमीरी लाल	01.07.2011
6.	श्री आर. पी. सक्सेना	20.06.2011
7.	श्रीमती किरण दुग्गल	27.05.2011
8.	श्रीमती विजयलक्ष्मी महादेवन	30.05.2011

बी. के. सिंह, अवर सचिव

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110021, दिनांक 12 अगस्त 2011

सं. ए-22012/1/2011-पीए--राष्ट्रपति, सुश्री रंजना रतूड़ी काले (आईईएस:83), को 01.08.2011 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक, आईईएस के एसएजी स्तर के एक स्वीकृत पद के विरुद्ध प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में, आर्थिक सलाहकार के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. सी. मीना, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2011

सं. 65 (फा. सं. ए.19013/18/2011-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री अशोक कुमार पांडे (भा.रा.से.:सी.शु. एवं के.उ.शु.) को दिनांक 22.07.2011 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 1 अगस्त 2011

सं. 67 (फा. सं. ए-19013/20/2011-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री आदित्य कुमार गोयल (भा.रा.से.:सी.शु. एवं के.उ.शु.) को दिनांक 27.07.2011 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 68: (फा.सं. ए-38014/3/2011-प्रशा.-1)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री अशोक कुमार अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31.07.2011 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 69: (फा.सं. ए-38011/6/2011-प्रशा.-1)--राजस्व विभाग के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सदस्य के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 73) के अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31.07.2011 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 70: (फा.सं. ए-38011/7/2011-प्रशा.-1)--राजस्व विभाग के के.उ.शु. एवं सी.शु. बोर्ड में सदस्य के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (सी.शु. एवं के.उ.शु. : 74) की अधिकारी श्रीमती ललिथा जॉन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31.07.2011 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 71: (फा.सं. ए-19011/13/2011-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री प्रदीप मेहरोत्रा, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 88037) को दिनांक 15.07.2011 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेशों तक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में आयुक्त (आई. टी. ए.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 2011

सं. ए-12011/05/2010-प्रशा.-2--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.03.2011 के का.ज्ञा. सं. 3/1/2011-सीएस-II तथा व्यय विभाग (सीएस) के दिनांक 29.07.2011 के का.ज्ञा. सं. ए-32014/4/2010-सीएस के अनुसरण में, रक्षा मंत्रालय के

सीएसएसएस संवर्ग के निजी सचिव श्री विजय सिंह रोहिल्ला को दिनांक 22.07.2011 से 30.09.2011 की अवधि अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए वेतन बैंड-3 में रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/- (ग्रेड वेतन) में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में पूर्णतया तदर्थ आधार प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. अधिकारी की उपर्युक्त पदोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और यह उन्हें अनिश्चित काल तक इस ग्रेड में बने रहने या प्रधान निजी सचिव के पद में वरीयता संबंधी दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

अशोक कुमार, अवर सचिव

दिनांक 8 अगस्त 2011

सं. ए-19011/10/2011-प्रशा.-2--राष्ट्रपति, श्री पुनीत अग्रवाल, भा.प्र.से. (महाराष्ट्र : 98) को स्वीकृत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि के लिए उन्हें 01 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न से 19.10.2012 अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

दिनांक 10 अगस्त 2011

सं. ए-19011/11/2011-प्रशा.-2--राष्ट्रपति, श्री नवीन अग्रवाल (आईआरपीएस : 97) को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में दिनांक 09 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 अगस्त 2011

सं. ए-32011/01/2011-प्रशासन-II--राष्ट्रपति, भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ समयमान अधिकारियों को उनके पदोन्नयन के पश्चात् उनके नामों के समक्ष दर्शित तिथि से भारतीय कॉरपोरेट सेवा में वरिष्ठ समयमान (पे बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/-) में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	वरिष्ठ समयमान में नियुक्ति की प्रभावी तिथि	वर्तमान पदस्थापना स्थिति
1	2	3	4
	(श्री/श्रीमती/कुमारी)		
1.	पी. बालाकृष्णन	26.05.2011 (अपराह्न)	उप कंपनी रजिस्ट्रार, आरओसी का कार्यालय, मुम्बई

1	2	3	4
	(श्री/श्रीमती/कुमारी)		
2.	सी. रुपचंदर	26.05.2011 (अपराह्न)	आरओसी का कार्यालय, चेन्नई से सेवानिवृत्त हुए
3.	पी. सी. नंदकुमार	26.05.2011 (अपराह्न)	उप निदेशक, आरडी (द.पू. क्षे.) का कार्यालय, हैदराबाद
4.	जे. पी. रायचौधरी	26.05.2011 (अपराह्न)	उप निदेशक, आरडी (पू.क्षे. एण्ड उ.पू.क्षे.) का कार्यालय, कोलकाता
5.	टी. के. मुखर्जी	27.05.2011 (पूर्वाह्न)	उप कंपनी रजिस्ट्रार, आरओसी का कार्यालय, कोलकाता
6.	कमल हरजानी	26.05.2011 (अपराह्न)	उप निदेशक, आरडी (उ.प्र. क्षे.) का कार्यालय, अहमदाबाद
7.	के. सी. मीणा	26.05.2011 (अपराह्न)	उप कंपनी रजिस्ट्रार, आरओसी का कार्यालय, जयपुर
8.	वी. ई. जोसकुट्टी	26.05.2011 (अपराह्न)	उप कंपनी रजिस्ट्रार, आरओसी का कार्यालय, केरल
9.	आर. के. बक्शी	26.05.2011 (पूर्वाह्न)	उ.नि., एमसीए मुख्यालय
10.	आर. पी. विमल	27.05.2011 (पूर्वाह्न)	उप-शासकीय समापक, शासकीय समापक का कार्यालय, दिल्ली
11.	अनिता क्लेयर	28.07.2011 (पूर्वाह्न)	उप कंपनी रजिस्ट्रार, आरओसी का कार्यालय, दिल्ली
12.	एम. एस. पचौरी	26.05.2011 (पूर्वाह्न)	उ.नि., एमसीए मुख्यालय
13.	वी. एन. खंडारे	27.05.2011 (पूर्वाह्न)	उप कंपनी रजिस्ट्रार, आरओसी का कार्यालय, मुम्बई
14.	राजिंदर सिंह	26.05.2011 (अपराह्न)	उप-शासकीय समापक, शासकीय समापक का कार्यालय, मुम्बई

राज कुमार पाण्डेय, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

पूर्ति प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 2011

सं. ए-32014/6/2010-संवर्ग--राष्ट्रपति, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की आशुलिपिक, ग्रेड 'सी' श्रीमती शकुन्तला देवी को 01 अगस्त, 2011 (पूर्वाह्न) से 30.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर पूर्ति

प्रभाग में पी.बी.-2 में (रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,800/-) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की निजी सचिव, श्रीमती शकुन्तला देवी को पूर्ति तथा निपटन महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

संजय शंकर, अवर सचिव

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त 2011

सं. आई-34011/10/2005-आर. टी. आई.--इस विभाग की दिनांक 06.10.2005 की अधिसूचना सं. एफ-23024/16/2005-ई-III में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री गोपाल प्रसाद, उप सचिव को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से संबंधित उन सभी मामलों के लिए जो उनके प्रभार में आते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

श्री आर. एस. गर्ग, उप सचिव जो इस विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं का नाम इस विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की सूची से हटा दिया गया है।

बाबू लाल, निदेशक

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 2011

सं. ए-12011/7/2009-स्था.--राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 5 अगस्त, 2011 के आदेश संख्या 13016/3/2011-आई. ई. एस. के अनुसरण में योजना आयोग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री एम. रमेश चन्द्र, आई. ई. एस. को अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले विभाग में 12 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न से उप आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

ओम प्रकाश, उप सचिव

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2010

सं. ए-32013/1/2006-स्था.-1--राष्ट्रपति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में श्री सतवीर वाधवा को 01.07.2011 के पूर्वाह्न से (पीबी-3) 15,600--39,100/- रु. + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. श्री सतवीर वाधवा की प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में पदोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और उन्हें अनिश्चितकाल तक ग्रेड में बने

रहने या प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरीयता का दावा करने का किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 2 अगस्त 2011

सं. ए-12022/1/2009-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री घनश्याम शाहू, भारतीय लागत सेवा (1998) को उपभोक्ता मामले, खद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) में 27 जुलाई 2011 के पूर्वाह्न से पे बैंड (पीबी-3) 15,600--39,100/- रु. + 7,600/- रु. के ग्रेड पे में पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, उप सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 जुलाई 2011

सं. ए-32012/1/2009-पी.-II(.)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01 जुलाई, 2011 के कार्यालय आदेश सं. 3/2/2011-सीएस-I(डी) के द्वारा वर्ष 2011 की सीएसएस वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) चयन सूची में उनका नाम सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप श्री प्रदीप कुमार, सीएसएस के चयन ग्रेड (उप सचिव) अधिकारी को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 01 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से ग्रेड वेतन 8,700/- रु. सहित पीबी-4 (रु. 37,400--67,000/-) में निदेशक नियुक्त करते हैं।

एम. एल. वाधवानी, अवर सचिव

दिनांक 1 अगस्त 2011

सं. ए-38011/2011-पी.-II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् श्री जीवन दास, निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 31 जुलाई, 2011 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एम. एल. वाधवानी, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 8 अगस्त 2011

सं. ए-12025/45/2007-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अंजुम आरा को दिनांक 05.11.2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 15,600--39,100/- रु. + 5,400/- रु. (पीबी-3) के वेतनमान में अस्थायी क्षमता में नियुक्त करते हैं। डॉ. अंजुम आरा को सीजीएचएस, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों के लिए परीक्षा पर रहेंगी।

अरुण चौधरी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 10 अगस्त 2011

सं. ए-12034/16/2011-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अध्यापन उप-संवर्ग की एस ए जी अधिकारी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली के अंतर्गत जी बी पंत अस्पताल में जैव रसायन के निदेशक-प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ. वी. मलिका के दिनांक 03.05.2011 के दुःखद निधन पर शोक प्रकट करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 12 अगस्त 2011

सं. ए-12025/30/08-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. दीपक सचान को दिनांक 13.05.2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में बाल चिकित्सा की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2011

सं. ए-19013/07/2008-स्थापना-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 जुलाई, 2011 के कार्यालय आदेश संख्या 21/6/2010-सीएस-I(डी) वोल्यू II के अनुसरण में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में सुश्री सुजया कृष्णन, निदेशक (सी एस एस) को दिनांक 25.07.2011 (पूर्वाह्न) से स्वस्थाने (इन-सीटू) आधार पर संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के पद पर तैनात किया जाता है।

अनिल कुमार, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 अगस्त 2011

सं. ए-19011/63/2011-स्था.--राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 जुलाई, 2011 के कार्यालय आदेश सं. 4/26/2011-ईओ (एसएम. I) के अनुसरण में डॉ. सुजीत मित्रा, भा.प्रा.से. (अ.मे.:77) को दिनांक 01 अगस्त, 2011 (पूर्वाह्न) से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

लुकास एल. कामसुआन, उप सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 अप्रैल 2011

सं. ए-11019/1/2011/प्रशा.-I--राष्ट्रपति इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित निजी सचिवों (वर्तमान

प्रधान निजी सचिव तदर्थ के रूप में कार्यरत) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01 फरवरी, 2011 के का. ज्ञा. सं. 5/3/2010-सीएस- II(ए) के तहत उन्हें दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव की वर्ष 2008 और 2009 की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप नियमित आधार पर 01.02.2011 के पूर्वान्त से वेतन बैंड-III (15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 6,600/- रु.) के वेतनमान में प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	चयन सूची वर्ष
1.	श्री आर. डी. शर्मा	2008
2.	श्री राजन दीवानी (28.02.2011 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त)	2009

गर्वीसिस कलमपल्लिल, उप सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 जून 2011

सं. पीएफ-365/प्रशा. I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री गर्वीसिस कुलमपल्लिल अवर सचिव, दूरसंचार विभाग दिनांक 30 जून, 2011 के अपराह्न को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एन. पी. केशवन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 जुलाई 2011

शुद्धि-पत्र

सं. ए-32014/2/2010-प्रशा. I--इस विभाग की दिनांक 09.06.2011 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए श्री जेकब वी जार्ज (क्रम संख्या 9 पर) की तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्ति की अवधि को दिनांक 01.06.2011 से 30.06.2011 तक के स्थान पर 01.06.2011 से 30.09.2011 तक, के रूप में पढ़ा जाए।

निर्मला देव, अवर सचिव (प्रशा.-I)

दिनांक 8 जुलाई 2011

शुद्धि-पत्र

सं. ए-32013/4/2010-प्रशा. I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.06.2011 के आदेश सं. 5/3/2010-सीएस- I (यू) के अनुसार अवर सचिवों की तदर्थ पदोन्नति को 31.05.2012 तक बढ़ाने संबंधी राष्ट्रपति की स्वीकृति वाली अधिसूचना सं. ए-32013/4/2010 के जारी होने की तारीख को "29, 2011" के स्थान पर "29 जून, 2011" पढ़ा जाए।

निर्मला देव, अवर सचिव (प्रशा.-I)

दिनांक 11 जुलाई 2011

सं. ए-32014/2/2010-प्रशासन I--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग 'ग' के निम्नलिखित

आशुलिपिकों को तदर्थ आधार पर निजी सचिव [आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलय)] के पद पर पे बैंड-2 वेतनमान रुपए 9,300--34,800/- में ग्रेड पे 4,800/- रुपए में दूरसंचार विभाग के संवर्ग में उनके नाम के आगे उल्लेखित अवधि तक या जब तक नियमित निजी सचिव [आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलय)] मिल नहीं जाते या अगले आदेश के जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	आशुलिपिक ग्रेड 'ग' का नाम	अवधि
1.	श्री पी. एस. राम कृष्णा	06.06.2011 से 30.09.2011
2.	श्रीमती बिन्दू मोल ओ.	04.07.2011 से 30.09.2011
3.	श्रीमती वरलक्ष्मी नागराजू	04.07.2011 से 30.09.2011
4.	श्रीमती सुनीता	04.07.2011 से 30.09.2011

2. उपर्युक्त नियुक्तियां पूर्णतः तदर्थ आधार पर हैं और इनसे इस ग्रेड में आमेलन के लिए या निजी सचिव ग्रेड [आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलय)] में वरीयता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

निर्मला देव, अवर सचिव (प्रशा.-I)

दिनांक 15 जुलाई 2011

सं. ए-32014/2/2006-प्रशा. I--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित आशुलिपिक श्रेणी-'ग' को नीचे उल्लिखित अतिरिक्त अवधि अथवा नियमित निजी सचिव [आशुलिपिक श्रेणी 'क एवं ख' (समाहित)] के उपलब्ध होने अथवा इस संबंध में आगे कोई आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए दूरसंचार विभाग के संवर्ग में 4,800/- रुपए ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रुपए के वेतनमान के वेतन बैंड-2 में तदर्थ आधार पर निजी सचिव [आशुलिपिक श्रेणी 'क एवं ख' (समाहित)] के स्थानापन्न के रूप में कार्य करते रहने की अनुमति देते हैं :--

क्र. सं.	आशुलिपिक श्रेणी 'ग' का नाम	अवधि
1.	श्रीमती बलबीर कौर	01.07.2011 से 31.12.2011
2.	श्री प्रवेश कुमार	01.07.2011 से 31.12.2011
3.	श्री एस. एस. वर्मा*	01.07.2011 से 31.07.2011
4.	श्री दसरती कुमार	01.07.2011 से 31.12.2011

*5,400/- रुपए ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रुपए के पीबी-2 में तीसरी एमएसीपी मंजूर की गई।

2. उपर्युक्त नियुक्तियां पूर्णतः तदर्थ आधार पर हैं और उक्त पदों पर नियुक्ति होने पर अधिकारियों को इस ग्रेड में आमेलन अथवा निजी सचिव

ग्रेड [आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (समाहित)] में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

निर्मला देव, अवर सचिव (प्रशा.-I)

सं. ए-39014/1/2006-प्रशा. I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मार्च, 2011, 30 मई, 2011 एवं 2 जून, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सीएस-II के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (समाहित)/निजी सचिव जिनके सामने संवर्ग इकाईयां उल्लिखित हैं, को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से दिनांक 30.09.2011 की अवधि तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक या इस संबंध में आगे कोई आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए 6,600/- रुपए वेतन ग्रेड सहित वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए) में दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. नाम सं.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का उपर्युक्त आदेश में उल्लिखित क्रम सं.	संवर्ग जहां नियमित निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं	दूरसंचार विभाग में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1. श्रीमती सरिता दास	13*	योजना आयोग	08.06.2011 (पूर्वाह्न)
2. श्री आर. के. अरोड़ा	478**	संघ लोक सेवा आयोग	04.07.2011 (पूर्वाह्न)
3. श्री पी. जगदेशन	19\$	संघ लोक सेवा आयोग	04.07.2011 (पूर्वाह्न)

*दिनांक 02.06.2011 \$दिनांक 30.05.2011

**दिनांक 29.03.2011

2. उपर्युक्त नियुक्तियां पूर्णतः तदर्थ आधार पर हैं और इन नियुक्तियों से कर्मचारियों को इस संवर्ग में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के संवर्ग में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

निर्मला देव, अवर सचिव (प्रशा.-I)

दिनांक 18 जुलाई 2011

सं. ए-32014/1/2008-प्रशा. I--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को दूरसंचार विभाग के संवर्ग में प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई अवधि के लिए या केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो पहले हो, वेतन बैंड-2 में 9,300--34,800/- के वेतनमान + 4,800/- रुपए (ग्रेड वेतन) में

तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

क्र. नाम
सं.

(सर्वश्री/श्रीमती/कु.)

- टी. सी. मीणा
- वेद प्रकाश-1
- एम. सी. इक्का
- गुरमीत कौर
- वी. के. शर्मा
- सुधा शर्मा
- मंजु भटनागर
- गुरुविंदर कौर
- सुनिता शर्मा
- हरमिंदर सिंह
- रीता मखिजा
- कांता कुमारी
- एम. एल. मीणा
- अनिता उतरेजा
- सुरेन्द्र कुमार
- एस. पी. गांगुली
- राकेश कुमार दीक्षित
- हिटलर सिंह
- राजीव लोचन

2. अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ प्रोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

- (क) इन तदर्थ नियुक्तियों से इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (ख) यह तदर्थ व्यवस्था वरिष्ठता कोट या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवारों के उपलब्ध होने तक जारी रह सकती है। तदर्थ आधार पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा इन दोनों श्रेणियों में से किसी में भी नियमित नियुक्ति हेतु अर्हता प्राप्त न करने

पर, उन्हें नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने पर उन नियमित अनुभाग अधिकारियों द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनको आबंटित की गई संबंधित संवर्ग इकाईयों में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से सहायक के ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

निर्मला देव, अवर सचिव (प्रशा.-I)

दिनांक 29 जुलाई 2011

सं. पीएफ-2651/प्रशा.I--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर श्री एस. एस. वर्मा, निजी सचिव (तदर्थ), दूरसंचार विभाग दिनांक 31 जुलाई, 2011 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

निर्मला देव, अवर सचिव (प्रशा.-I)

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2011

सं. 3(11)/2010-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी ने श्री नरेन्द्र कुमार किंगर, संयुक्त निदेशक को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 19.07.2011 से 8,700/- रुपए प्रतिमाह के ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- रुपए के वेतन बैंड-4 में स्वस्थाने/वैयक्तिक आधार पर निदेशक नियुक्त किया है।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

दिनांक 29 जुलाई 2011

सं. 4(408)/87-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में श्री अनिल कुमार चोपड़ा, वैज्ञानिक 'एफ' (कर्मचारी कोड सं. 122) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 जुलाई, 2011 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

सं. 4(233)/84-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में श्री जनेश्वर कुमार त्यागी, निदेशक (कर्मचारी कोड सं. 199) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 जुलाई, 2011 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

सं. 4(790)/09-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में श्रीमती देवेन्द्र ओबराय, अनुभाग अधिकारी (कर्मचारी कोड सं. 341) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 जुलाई, 2011 को सेवानिवृत्त हो रही हैं।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 अगस्त 2011

सं. 6138/एनआईसी/2011-प्रशा.-II--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री अमर मानिकराव बाकलिकर (कर्मचारी कोड सं. 6138) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, जिला केन्द्र, नंदुरबार, महाराष्ट्र में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड-"एस बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 18 जून, 2011 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप निदेशक (प्रशा.-II)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 अगस्त 2011

सं. पीएफ/1627/एनआईसी/2011-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्रीमती स्वागत घोष, वैज्ञानिक-सी, कर्मचारी कोड सं. 1627 की राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र-पश्चिम बंगाल राज्य एकक, कोलकाता से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति को दिनांक 3 अगस्त, 2011 की पूर्वाह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, संयुक्त निदेशक (प्रशासन-I)

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 अप्रैल 2011

सं. 3-4/2011-प्रशासन--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 3/1/2011-सीएस-II (ए) (पार्ट) दिनांक 29.03.2011 के अनुसरण में राष्ट्रपति, सहर्ष डाक विभाग में सीएसएसएस के निम्नलिखित निजी सचिव (पीएस) को इसी संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के प्रधान निजी सचिव के तौर पर वेतनमान 15,600--39,100/- + 6,600/- (ग्रेड वेतन) वेतन बैंड-3 में 29.03.2011 (अपराह्न) से 30.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाता है, अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करती हैं :--

1. श्री वी. पी. मित्तल
2. श्री केवल सिंह

यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और इससे अधिकारी को ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए या सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

सं. 3-4/2011-प्रशासन--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 3/1/2011-सीएस-II (ए) (पार्ट) दिनांक 29.03.2011 के अनुसरण में राष्ट्रपति, सहर्ष औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में सीएसएसएस के निजी सचिव (पीएस) श्री ललित कुमार को डाक विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के प्रधान निजी सचिव के तौर पर वेतनमान 15,600--39,100/- + 6,600/- (ग्रेड वेतन) वेतन बैंड-3 में 01.04.2011 (पूर्वाह्न) से 30.09.2011 तक की अवधि के

हरीश पोखरियाल, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

सीएसएसएस के नियमित निजी सचिवों द्वारा इन्हें भरा जाता है, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

1. सुश्री गीता देवी
2. श्री सी. पी. अरोड़ा
3. सुश्री चन्द्रकांता
4. श्री एम. बी. सी. विनोद कुमार

2. यह नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और इससे अधिकारी को ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए या सीएसएसएस के निजी सचिव की चयन सूची में शामिल होने आवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

हरीश पोखरियाल, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 2011

सं. ई (जी.पी.) 2003/1/49--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलवे के सिविल इंजीनियर विभाग के निम्नलिखित ग्रुप-बी अधिकारी को उल्लिखित रेलवे पर दिनांक 14.09.2006 से भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग सेवा (आई.आर.एस.ई.) के ग्रुप-ए कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2004-05 के लिए पैन्ल

दक्षिण पूर्व रेलवे

श्री एस. बी. साहू (पूर्व तट रेलवे में कार्यरत)

वी. के. गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 8 अगस्त 2011

सं. ईआरबी-I/2010/10/4--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.07.2011 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :-

- (i) श्री बृज मोहन, अपर सदस्य (वाणिज्य)
- (ii) श्री के. सी. गुप्ता, प्रमुख स्टाफ अधिकारी
- (iii) श्री अशोक कुमार शीरसागर, अनुभाग अधिकारी
- (iv) श्री नत्थू रायक्वार, अनुभाग अधिकारी
- (v) श्रीमती एच. बी. दुआ, अनुभाग अधिकारी
- (vi) श्री वी. एस. एल. श्रीवास्तव, सहायक यातायात प्रबंधक (एमएम)
- (vii) श्री सन्नी वर्गीस, निजी सचिव
- (viii) श्री एस. के. अत्री, निजी सचिव

वी. के. गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त 2011

सं. ए-19012/6/2011-ई-I--राष्ट्रपति, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 19.05.2011 के का. ज्ञा. सं. 12016/2/2011-एसएसएस के अनुसरण में अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के अधिकारी श्री जगदीश चन्द को 11.07.2011 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, 9,300--34,800/- रु. के पे बैंड-2 + 4,600/- रु. की ग्रेड पे में सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-I के पद पर उनकी तदर्थ पदोन्नति होने पर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-I के रूप में नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

सं. ए-12023/1/2010-ई-I--राष्ट्रपति, कर्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.07.2011 के आदेश सं. 21/6/2010-सीएस-I (डी) वॉल.-II के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की वरिष्ठ चयन ग्रेड अधिकारी श्रीमती एस. नरेन्द्रा, जो इस समय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, को केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत रखे जाने तक इसी मंत्रालय में दिनांक 22.07.2010 (पूर्वाह्न) से 37,400--67,00/- रुपये के पे बैंड-4 + 10,000/- रुपये के ग्रेड पे में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) में संयुक्त सचिव (यथास्थाने) नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक अगस्त 2011

सं. 7/5/2009-सीजीडब्ल्यूबी--राष्ट्रपति, श्री रंजीत कुमार प्रसाद को 13.05.2011 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में पीबी-3, 15,600--39,100/- रुपये के वेतनमान + 5,400/- रु. के ग्रेड वेतन में जल मौसम वैज्ञानिक (वैज्ञानिक-'बी') (समूह-'क') के पद पर नियुक्त करते हैं।

विनीत अब्राहम, अवर सचिव

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त 2011

सं. ए-32012/03/2007-आईएसएच-II--राष्ट्रपति, श्री सुभाष चन्द्र को संशोधन-पूर्व 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में महानिदेशालय, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान, मुंबई में 27.06.2011 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक निदेशक (सुरक्षा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वंदना शर्मा, निदेशक

सं. ए-32012/02/2011-आईएसएच-II--राष्ट्रपति, श्री बाबू लाल बैरवा को संशोधन-पूर्व 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में महानिदेशालय, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान, मुंबई में 15.06.2011 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक निदेशक (कर्मचारी प्रशिक्षण/उत्पादकता) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वंदना शर्मा, निदेशक

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 4th August 2011

No. RS.3/1(1)/2011/64-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Girija Shankar Prasad, Assistant Director in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Deputy Director in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- plus usual allowances as admissible under the rules, on ad hoc basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 4th August, 2011 and until further orders.

2. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

No. RS.3/1(1)/2011/65-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons in the grade of Legislative/Committee/Protocol/Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Assistant Director in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- plus usual allowances as admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 31st July, 2011 and until further orders :—

1. Shri Goutam Kumar
2. Shri Sammer Kapoor
3. Shri P. C. Maharana

2. The above appointments would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

The 5th August 2011

No. RS.46/2010/67-Perl.—Shri R. D. Indora has been appointed to the grade of Accounts Officer in the Rajya Sabha Television on re-employment basis in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/-, plus usual allowances as admissible under the rules, with effect from the forenoon of 5th August, 2011 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

The 10th August 2011

No. RS/3/4/1/2011/68-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Ranbir Singh, Personal Assistant in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Private Secretary on insitu basis in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- plus usual allowances as admissible

under the rules with effect from the forenoon of 1st August, 2011 and until further orders.

2. The above appointment shall be governed by the provisions contained in the Scheme of in-situ promotion notified vide R&CS Order No. 5/2009 dated 26th November, 2009.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 9th August 2011

No. A-12025/9/2009-Adm.I—In continuation of Planning Commission notification of even number 25th February, 2011, the President is pleased to extend the term of ad hoc appointment of Dr. D. Bhardwaj as Joint Adviser (IEM) for a further period upto 30/9/2011 beyond 3/8/2011 in PB-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- or till regular arrangement is made or until further orders, whichever is earlier.

2. The other terms and conditions will remain the same as was mentioned in earlier Planning Commission Notification of even number dated 11th August, 2010.

G. RAJEEV, Under Secy.

No. A-12025/6/2011-Adm.I—Consequent upon his repatriation from Ministry of Social Justice and Empowerment, the President is pleased to appoint Dr. Pitam Singh, regular Deputy Adviser (Project Appraisal), Planning Commission as Joint Adviser (Education) in Pay Band-4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- on promotion on ad hoc basis for a period of one year w.e.f. the forenoon of 5.8.2011 or till the post in question is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. It is made clear that the above said ad hoc appointment will not bestow on Dr. Singh any right to claim for regular appointment in the grade of Joint Adviser and also that any service rendered by him on ad hoc basis in the grade of Joint Adviser would neither count for the purposes of seniority in the grade of Joint Adviser nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

G. RAJEEV, Under Secy.

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 8th August 2011

No. A-19011/78/2011-UIDAI—In pursuance of Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi, Letter No. A-12013/21/2010-UIDAI, dated 26.07.2011 and Ministry of Defence Letter No. A-77003/NKP/DGQ(A)/CAO/A-3(B) dated 01.08.2011, Shri Niraj Kumar Pathak has assumed the charge of Deputy Director in HQ, Unique Identification Authority of India, New Delhi w.e.f. 01.08.2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade

Pay of Rs. 6,600/- on deputation basis for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

A. K. SARKAR, Dy. Dir.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 20th July 2011

No. A-12034/1/2009-Admn.IV(LA) Vol.III—Consequent on demission of office by Dr. M. Veerappa Moily as Minister for Law & Justice with effect from 13.07.2011 and as per instructions contained in the Department of Personnel & Administrative Reforms O.M. No. 10/20/97-CS.II dated 02.08.1979, winding up period of 30 days from 13.07.2011 to 11.08.2011 is granted to Shri Rakesh Singh, IAS (KN: 89) Private Secretary to the former Minister for Law & Justice (Dr. M. Veerappa Moily).

The services of Shri Rakesh Singh, IAS (KN: 89) are placed at the disposal of Department of Personnel & Training w.e.f. 12.08.2011 (F/N).

ASHA SOTA, Under Secy.

The 29th July 2011

No. A-32013/4/2006-Admn.IV (LA)—In continuation of this Department's Notification of even number dated 13.12.2010 and in pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 20/31/2010-CS-II(A) dated 13.07.2011, the President is pleased to extend the term of appointment of Ms. Jasbir Bedi, a regular Private Secretary as Principal Private Secretary on ad hoc basis against regular vacancy in the CSSS cadre of the Ministry of Law & Justice for a period upto 30.09.2011 or till regular PPSs become available or until further orders, whichever is earlier.

2. The above said ad hoc appointment will not bestow on her any claim for regular promotion to the grade of PPS nor will the service rendered by her on ad hoc basis will count for the purpose of seniority in the grade or for her promotion to the next higher grade.

ASHA SOTA, Under Secy.

No. A-32013/3/2006-Admn.IV (LA)—The President is pleased to appoint Ms. Kavita Kundra, a regular Principal Private Secretary of CSSS Cadre of Ministry of Urban Development as Senior Principal Private Secretary on ad hoc basis in the Pay Band PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- in the CSSS cadre of Ministry of Law & Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department) w.e.f. 07.07.2011 (A/N).

2. In terms of Department of Personnel & Training O.M. No. 2/2/2011-CS.II(A) dated 01.06.2011, the above said appointment is purely on ad hoc basis for the period up to

30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is the earliest and will not confer any right on Ms. Kavita Kundra to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of Sr. PPS.

ASHA SOTA, Under Secy.

No. A-32013/4/2006-Admn.IV (LA) Vol. II—The President is pleased to appoint the following regular Private Secretaries of respective cadres as Principal Private Secretary on ad hoc basis in the Pay Band PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in this department w.e.f. dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Cadre where presently working	Date of joining this Department
1.	Shri S. K. Padhi	Ministry of Textile	22.07.2011
2.	Shri Parveen Chander Gurah	Ministry of Finance, Department of Financial Services	08.07.2011

2. In terms of Department of Personnel & Training Order No. 3/1/2011-CS.II(A) dated 29.03.2011 & 30.05.2011, the above said appointment is purely on ad hoc basis for the period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier and will not confer any right on them to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

ASHA SOTA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 8th August 2011

No. 13017/26/2009-AIS-I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Nagaland and Assam-Meghalaya, the Central Government hereby transfers Ms. Pooja Pandey, IAS (NL: 08) from Nagaland cadre to Assam-Meghalaya cadre (Meghalaya Segment) on the ground of marriage to Dr. Brahma Deo Ram Tiwari, IAS (AM: 06).

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 13017/19/2011-AIS-I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Government of Rajasthan and the Ministry of Home Affairs, the Central Government hereby transfers Ms. Shilpa Shinde, IAS (RJ:06) from Rajasthan to AGMUT cadre on the ground of marriage to Shri Sachin Shinde, IAS (AGMUT: 08).

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 13017/27/2010-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Karnataka and Punjab, the Central Government hereby accords approval for inter cadre deputation of Ms. Khushboo Goel, IAS (KN:08) from Karnataka cadre to Punjab cadre for a period of three years from date of assumption of charge or until further orders, whichever is earlier.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

New Delhi, the 10th August 2011

No. 14012/13/2011-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service borne on the AGMUT Cadre, in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them :—

Sl. No.	Name	Batch	Date of confirmation
	(S./Sh.)		
1.	Abhishek Dev	2007	18.08.2009
2.	Abhyankar Ameya Ajit	2007	18.08.2009
3.	Jawahar P.	2007	18.08.2009
4.	Juhi Mukherjee (Ms.)	2007	18.08.2009
5.	Nila Mohanan (Ms.)	2007	18.08.2009
6.	Udit Prakash	2007	18.08.2009

NAVNEET MISRA, Under Secy.

No. 14013/07/2011-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service borne on the Chhattisgarh Cadre, in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them :—

Sl. No.	Name	Batch	Date of confirmation
	(S./Sh.)		
1.	M. S. Paraste	2000	03.05.2007
2.	S. K. Jaiswal	2000	03.05.2007
3.	Omega Eunies Toppo (Ms.)	2000	03.05.2007
4.	Xavier Tigga	2000	03.05.2007
5.	Ashok Kumar Agarwal	2000	03.05.2007
6.	Naval Singh Mandavi	2000	03.05.2007

1	2	3	4
	(S./Sh.)		
7.	Devi Dayal Singh	2000	03.05.2007
8.	S. L. Ratre	2000	03.05.2007
9.	S. P. Shori	2000	03.05.2007
10.	S. R. Brahmane	2000	03.05.2007
11.	Trilok Chand Mahawar	2000	23.02.2008
12.	Ram Singh Thakur	2000	23.02.2008
13.	Nirmal Kumar Khakha	2000	23.02.2008
14.	Ram Singh Thakur	2000	23.02.2008
15.	Rajpal Singh Tyagi	2001	27.12.2008
16.	Brajesh Chandra Mishra	2002	10.10.2009
17.	Alok Awasthi	2002	14.03.2008

NAVNEET MISRA, Under Secy.

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES

New Delhi-110001, the 4th August 2011

No. A-22012/1/2010-AR(Ad.-I)—The President is pleased to appoint the following Stenographer Grade 'C' as Steno Grade 'A&B' (Merged) of Central Secretariat Stenographers Service on ad hoc basis with effect the date shown against each in Department of Administrative Reforms & Public Grievances :—

Sl. No.	Name	Date of Assumption of charge of the post
1.	Smt. Saroj Ravi Girota	15.03.2011
2.	Smt. Renuka Saxena	01.04.2011
3.	Smt. Naresh Sahani	27.05.2011
4.	Shri Devender Satti	31.05.2011
5.	Shri Kashmiri Lal	01.07.2011
6.	Shri R. P. Saxena	20.06.2011
7.	Smt. Kiran Duggal	27.05.2011
8.	Smt. Vijayalakshmi Mahadevan	30.05.2011

B. K. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

New Delhi, the 12th August 2011

No. A-22012/1/2011-PA—The President is pleased to appoint Ms. Ranjana Raturi Kale (IES: 83) as Economic

Adviser in the Ministry of Overseas Indian Affairs, against a sanctioned SAG level post of the IES, with effect from the forenoon of 01.08.2011 and until further orders.

R. C. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 29th July 2011

No. 65 : (F.No. A-19013/18/2011-Ad.-I)—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Pandey, (IRS : C&CE) as Senior Technical Officer in the Central Board of Excise Customs, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 22.07.2011 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 1st August 2011

No. 67 : (F.No. A-19013/20/2011-Ad.-I)—The President is pleased to appoint Shri Aditya Kumar Goel, (IRS : C&CE) as Senior Technical Officer in the Central Board of Excise Customs, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 27.07.2011 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 68 : (F.No. A-38014/3/2011-Ad.-I)—Shri Ashok Kumar, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue, retired from Government Service on 31.07.2011 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 69 : (F.No. A-38011/6/2011-Ad.-I)—Shri Prakash Chandra, an officer of the Indian Revenue Service (IT: 73), posted as Member, CBDT in the Department of Revenue, retired from Government Service on 31.07.2011 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 70 : (F.No. A-38011/7/2011-Ad.-I)—Smt. Lalitha John, an officer of the Indian Revenue Service (C&CE: 74), posted as Member, CBEC in the Department of Revenue, retired from Government Service on 31.07.2011 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 71 : (F.No. A-19011/13/2011-Ad.-I)—The President is pleased to appoint Shri Pradip Mehrotra, IRS (IT:88037), as

Commissioner (ITA), CBDT with effect from 15.07.2011 (FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 4th August 2011

No. A-12011/05/2010-Admn.-II—In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 3/1/2011-CS.II dated 29.03.2011 and Department of Expenditure (CAS)'s O.M. No. A-32014/4/2010-CAS dated 29.07.2011, the President is pleased to appoint Shri Vijay Singh Rohilla, Private Secretary of the CSSS Cadre of Ministry of Defence as Principal Private Secretary in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (G.P.) in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on ad hoc basis w.e.f. 22.07.2011 for the period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or till further order, whichever is earlier.

2. The promotion of the abovementioned officers is purely on ad hoc basis and shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or claim seniority in the post of PPS.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

The 8th August 2011

No. A-19011/10/2011-Admn.-II—The President is pleased to appoint Shri Puneet Agarwal, IAS (MT: 98), as Deputy Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 1st August, 2011 for the balance period of Central Deputation tenure admissible to him i.e. up to 19.10.2012 or until further orders, whichever event takes place earlier.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

The 10th August 2011

No. A-19011/11/2011-Admn.-II—The President is pleased to appoint Shri Navin Agarwal, (IRPS: 97), as Director, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 9th August, 2011 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 10th August 2011

No. A-32011/01/2011-Ad.II—The President is pleased to appoint the following Junior Time Scale officers to Senior Time Scale of Indian corporate Law Service (PB-3,

Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) on their promotion with effect from the date mentioned against their name:—

S. No.	Name of the officer	Date of effect of STS appointment	Present Posting status
1	2	3	4
	(S/Sh./Smt./Kum/)		
1.	P. Balakrishnan	26.05.2011(AN)	DROC, O/o ROC, Mumbai
2.	C. Rupachander	26.05.2011(A.N.)	Retired from O/o ROC, Chennai
3.	P.C. Nandakumar	26.05.2011(A.N.)	DD, O/o RD (SER), Hyderabad
4.	J.P. Roychoudhary	26.05.2011(A.N.)	DD,O/oRD(ER&NER), Kolkata
5.	T.K. Mukherjee	27.05.2011(F.N.)	DROC, O/o ROC, Kolkata
6.	Kamal Harjani	26.05.2011(A.N.)	DD, O/o RD(NWR), Ahmedabad
7.	K.C. Meena	26.05.2011(A.N.)	DROC, O/o ROC, Jaipur
8.	V.E. Josekutty	26.05.2011(A.N.)	DROC, O/o ROC, Kerala
9.	R.K. Bakshi	26.05.2011(F.N.)	DD, MCA Hqrs
10.	R.P. Vimal	27.05.2011(F.N.)	DOL, O/o OL, Delhi
11.	Anita Klair	28.07.2011(F.N.)	DROC, O/o ROC, Delhi
12.	M.S. Pachouri	26.05.2011(F.N.)	DD, MCA Hqrs
13.	V.N. Khandare	27.05.2011(F.N.)	DROC, O/o ROC, Mumbai
14.	Rajinder Singh	26.05.2011(A.N.)	DOI, O/o OL, Mumbai

R.K. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 4th August 2011

No. A-32014/6/2010-Cadre—The President is pleased to appoint Smt. Shakuntla Devi, Steno Grade 'C' of CSSS of M/o Water resources to the grade of Private Secretary of CSSS in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-) in Supply Division on ad-hoc basis for the period upto 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis, or further orders, whichever is earlier, w.e.f. 1st August, 2011 (forenoon).

2. Smt. Shakuntla Devi, PS of CSSS is posted in DGS&D.

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION

New Delhi, the 10th August 2011

No. I-34011/10/2005-RTI—In partial modification of this Department's Notification No. F-23024/16/2005-E-III dated 06.10.2005, Shri Gopal Prasad, Deputy Secretary is designated as Central Public Information Officer in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005 for all matters under his charge in Department of Industrial Policy & Promotion.

Name of Shri R.S. Garg, Deputy Secretary, who has retired on superannuation from this Department, stands deleted from the list of CPIOs of this Department.

BABU LAL, Director

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 16th August 2011

No. A-12011/7/2009-Estt.—In pursuance of Department of Economic Affairs Order No. 13016/3/2011-IES dated 5th August, 2011, the President is pleased to appoint Shri M. Ramesh Chandra, IES, Senior Research Officer in the Planning Commission as Deputy Economic Adviser in the Department of Consumer Affairs with effect from the forenoon of 12th August, 2011 and until further orders.

OM PRAKASH, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 12th July 2011

No. A-32013/1/2006-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Satvir Wadhwa as Principal Private Secretary of CSSS on ad-hoc basis in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. 01.07.2011 (F.N.) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/-.

2. The promotion of above officer to the grade of Principal Private Secretary is purely on ad-hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or claim seniority in the grade of Principal Private Secretary.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

The 2nd August 2011

No. A-12022/1/2009-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Ghanashyam Sahu, Indian Cost Accounts Service (1998) as Deputy Secretary in the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Food & Public Distribution) w.e.f. the forenoon of 27th July, 2011 in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- +

Grade Pay Rs. 7,600/- for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FOREST

New Delhi-110003, the 13th July 2011

No. A-32012/1/2009-P.II.—Consequent upon inclusion of his name in the CSS Senior Selection Grade (Director) Select List for the year 2011 vide Department of Personnel & Training Order No. 3/2/2011-CS.I(D) dated 1st July, 2011, the President is pleased to appoint Shri Pradeep Kumar, a Selection Grade (Deputy Secretary) officer of CSS, as Director in the Ministry of Environment and Forests in PB-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of 1st July, 2011.

M.L. WADHWANI, Under Secy.

The 1st August 2011

No. A-38011/9/2011-P.II.—Consequent upon attaining the age of superannuation Shri Jiwan Dass, Director in the Ministry of Environment and Forests has retired from Government Service from the afternoon of 31st July 2011.

M.L. WADHWANI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 8th August 2011

No. A-12025/45/2007-CHS.I—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Anjum Ara to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- + 5,400/- PB-3 in a temporary capacity with effect from the forenoon of 05.11.2009 until further orders. Dr. Anjum Ara is posted as Medical Officer under CGHS Delhi. She will be on a probation period of two years from the date of appointment.

ARUN CHOWDHURY, Under Secy.

New Delhi-110108, the 10th August 2011

No. A-12034/16/2011-CHS.III—The President announces the sad demise of Dr. V. Malika, a SAG level officer of Teaching Sub-Cadre of the Central health Service and working as Director-Professor of Biochemistry, G.B. Pant Hospital under Govt. of NCT, Delhi on 03.05.2011.

LALIT KUMAR, Under Secy.

The 12th August 2011

No. A. 12025/30/08-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is

pleased to appoint Dr. Deepak Sachan to the post of Assistant Professor in the specialty of Paediatric in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 13.05.2009 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH & FW)

New Delhi, the 29th July 2011

No. A. 19013/07/2008-E.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's Officer Order No. 21/6/2010-CS. I(D). Vol. II dated. 22nd July, 2011, Ms. Sujaya Krishnan, Director (CSS) in the Department of Health & Family Welfare is appointed as Joint Secretary, Department of Health & Family Welfare, on in-situ basis w.e.f. 25.07.2011 (FN).

ANIL KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110003, the 8th August 2011

No. A-19011/63/2011-Est.—In pursuance of Appointment Committee of the Cabinet, Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/26/2011-EO (SM.I) dated 22nd July, 2011, the President is pleased to appoint Dr. Surajit Mitra, IAS (AM:77) as Secretary, Ministry of Minority Affairs with effect from 01st August, 2011 (F/N).

LUCAS L. KAMSUAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 4th April 2011

No. A-11019/1/2011-Admn.I—Consequent upon their inclusion in the Select List for the year 2008 and 2009 of Principal Private Secretary of CSSS cadre of Department of Telecommunications vide DoP&T's OM No. 5/3/2010-CS.II(A) dated 01st February, 2011, the President is pleased to appoint the following Private Secretaries {presently working as PPS (ad-hoc)} of CSSS of this Department as Principal Private Secretary in the same Department in the scale of PB.III (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) on regular basis with effect from the forenoon of 01.02.2011 :—

Sl. No.	Name	Select List Year
1.	Shri R.D. Sharma	2008
2.	Shri Rajan Dewani (retired on superannuation on 28.02.2011)	2009

GERVASIS KULAMPALLIL, Under Secy.

New Delhi-110001, the 28th June 2011

No. PF.365/Admn.I—On attaining the age of superannuation, Shri Gervasis Kulampallil, Under Secretary, Department of Telecommunications shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 30.06.2011.

N.P. KESAVAN, Under Secy.

CORRIGENDUM

New Delhi-110001, the 7th July 2011

No. A. 32014/2/2010-Admn.I—In partial modification of this Department's Notification of even number dated 09.06.2011, the period of appointment of Shri Jacob V. George (at S.No. 9) as PS on ad-hoc basis maybe read as 01.06.2011 to 30.09.2011 instead of 01.06.2011 to 30.06.2011.

NIRMALA DEV, Under Secy.

CORRIGENDUM

The 8th July 2011

No. A. 32013/4/2010-Admn.I—The date of issue of Notification No. A. 32013/4/2010-Admn.I conveying President's sanction to extend ad-hoc promotion of Under Secretaries upto 31.05.2012 in terms of DOP&T's Order No. 5/3/2010-CS.I(U) dated 15.06.2011 maybe read as "29th June, 2011" instead of '29th 2011'.

NIRMALA DEV, Under Secy.

The 11th July 2011

No. A-32014/2/2010-Admn. I—The President is pleased to appoint the following Stenographers Grade 'C' of CSSS cadre of Department of Telecommunications as Private Secretary [Stenographer Grade 'A&B' (merged)] on ad-hoc basis in the Pay Band-2 of scale of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Rs. 4,800/- in the cadre of Department of Telecommunications for a period as indicated against each or till regular Private Secretary [Stenographer Grade 'A&B' (merged)] become available or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the Steno Grade 'C'	Period
1.	Shri P. S. Ramakrishna	06.06.11 to 30.09.11
2.	Smt. Bindu Mol O.	04.07.11 to 30.09.11
3.	Smt. Varalakshmi Nagaraju	04.07.11 to 30.09.11
4.	Smt. Sunita	04.07.11 to 30.09.11

2. The above appointments are purely on ad-hoc basis and will not confer any right on the officers for absorption in the grade or to claim seniority in the Private Secretary Grade [Stenographer Grade 'A&B' (Merged)].

NIRMALA DEV, Under Secy.

The 15th July 2011

No. A-32014/2/2006-Admn. I—The President is pleased to permit the following Stenographers Grade 'C' of CSSS cadre of Department of Telecommunications to continue to officiate as Private Secretary [Stenographer Grade 'A&B' (merged)] on ad-hoc basis in the Pay Band-2 of scale of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- in the cadre of Department of Telecommunications for a further period as indicated below or till regular Private Secretary [Stenographer Grade 'A&B' (merged)] become available or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the Steno Grade 'C'	Period
1.	Smt. Balbir Kaur	01.07.11 to 31.12.11
2.	Shri Parvesh Kumar	01.07.11 to 31.12.11
3.	Shri S. S. Verma*	01.07.11 to 31.12.11
4.	Shri Dasarathi Kumar	01.07.11 to 31.12.11

*Granted 3rd MACP in the PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 5,400/-

2. The above appointments are purely on ad-hoc basis and will not confer any right on the officers for absorption in the grade or to claim seniority in the Private Secretary Grade [Stenographer Grade 'A&B' (Merged)].

NIRMALA DEV, Under Secy.

No. A-39014/1/2006-Admn. I—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/1/2011-CS. II dated 29th March, 2011, 30th May, 2011 and 02nd June, 2011, the President is pleased to appoint the following regular Stenographer Grade 'A&B' (Merged)/PS of Central Secretariat Stenographer Service of the Cadre Units mentioned against each as Principal Private Secretary of CSSS in Department of Telecommunications in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay of Rs. 6,600/- on ad-hoc basis with effect from the dates mentioned against each for a period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	S.No. mentioned in the DoP&T's above referred orders	Cadre where worked as regular PS	Date of joining as PPS on ad-hoc basis in Department of Telecommunications
1.	Smt. Sarita Das	13*	Planning Commission	08.06.2011(FN)
2.	Shri R. K. Arora	478**	UPSC	04.07.2011(FN)
3.	Shri P. Jagadesan	19§	UPSC	04.07.2011(FN)

*dated 02.06.2011 § dated 30.05.2011

**dated 29.03.2011

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis and will not confer any right on them to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Principal Private Secretary grade of CSSS.

NIRMALA DEV, Under Secy.

The 18th July 2011

No. A-32014/1/2008-Admn. I—The President is pleased to permit the following Assistants of CSS Cadre of Department of Telecommunications to continue to officiate as Section Officers of CSS Cadre on ad-hoc basis in the Pay Band-2 in the Pay Scale Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay) in the cadre of Department of Telecommunications further for a period of three months, i.e. with effect from 01.07.2011 to 30.09.2011 or till the availability of regular Section Officers of CSS Cadre or until further orders, whichever is earlier :—

S. No.	Name
	(S/Shri)
1.	T. C. Meena
2.	Ved Prakash-I
3.	Kum. N. C. Ekka
4.	Smt. Gurmeet Kaur
5.	Sh. V. K. Sharma
6.	Smt. Sudha Sharma
7.	Smt. Manju Bhatnagar
8.	Smt. Gurminder Kaur
9.	Smt. Sunita Sharma
10.	Shri Harminder Singh
11.	Smt. Rita Makhija
12.	Smt. Kanta Kumari
13.	Shri M. L. Meena
14.	Smt. Anita Utreja
15.	Shri Surender Kumar
16.	Shri S. P. Ganguly
17.	Shri Rakesh Kumar Dixit
18.	Shri Hitlar Singh
19.	Shri Rajeev Lochan

2. Ad-hoc promotion/appointments to the grade of Section Officer is subject to the following conditions :—

- (a) The ad-hoc appointments shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of

Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade of CSS;

- (b) Ad-hoc arrangement would continue till regular candidates, in Section Officer Grade are available either through seniority quota or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE), in the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant's grade on availability of such regular officers from the date the regular Section Officers join duty in their respective cadre units allotted to them by the Deptt. of Personnel & Training.

NIRMALA DEV, Under Secy.

The 29th July 2011

No. PF-2651/Admn. I—On attaining the age of superannuation, Shri S. S. Verma, Private Secretary (ad-hoc), Department of Telecommunications shall stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st July, 2011.

NIRMALA DEV, Under Secy.

New Delhi-110003, the 28th July 2011

No. 3(11)/2010-Pers. I—The President is pleased to appoint Shri Narendar Kumar Kinger, Joint Director as Director on in-situ/personal basis in the Department of Information Technology in PB-4, Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from 19.07.2011.

R. K. MANCHANDA, Jt. Director

The 29th July 2011

No. 4(408)/87-Pers. I—On attaining the age of superannuation, Shri Anil Kumar Chopra, Scientist 'F' (Emp. Code-122), Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology retires from service on 31.07.2011.

R. K. MANCHANDA, Jt. Director

No. 4(233)/84-Pers. I—On attaining the age of superannuation, Shri Janeshwar Kumar Tyagi, Director (Emp. Code-199), Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology retires from service on 31.07.2011.

R. K. MANCHANDA, Jt. Director

No. 4(790)/09-Pers. I—On attaining the age of superannuation, Shri Davinder Oberio, Section Officer (Emp.

Code-341), Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology retires from service on 31.07.2011.

R. K. MANCHANDA, Jt. Director

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 29th June 2011

No. 6138/NIC/2011-Admn.-II—Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Sh. Amar Manikrao Baklikar, (Emp. Code No. 6138), NIC - District Centre Nandurbar, Maharashtra from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. 'SB', with effect from 18.06.2011 (A/N) and he is relieved of his duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Dy. Dir. (Admn.-II)

New Delhi-110003, the 1st August 2011

No. PF/1627/NIC/2011-Admn.-I—The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Smt. Swagata Ghosh, Emp. Code : 1627 from the post of Scientist-C, NIC - West Bengal State Unit, Kolkata from the forenoon of 03.08.2011 and she stands relieved of her duties from the same day.

R. M. NAIR, Jt. Dir. (Admn.-I)

DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 15th April 2011

No. 3-4/2011-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 3/1/2011-CS-II(A) dated 29.03.2011, the President is pleased to appoint the following Private Secretary (PS) of CSSS in Department of Posts as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) in the same cadre in the Pay Band PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) purely on ad-hoc basis for a period upto 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier, w.e.f. 29.03.2011(A/N) :—

1. Shri V. P. Mittal
2. Shri Kewal Singh

2. The appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right to the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS.

BHAGWAN DAS, Asstt. Dir. Gen. (Admn.)

No. 3-4/2011-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 3/1/2011-CS-II(A) dated 29.03.2011, the President is pleased to appoint Shri Lalit

Kumar, Private Secretary (PS) of CSSS in Department of Industrial Policy and Promotion as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) in the Department of Posts in the Pay Band PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) purely on ad-hoc basis for a period upto 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier, w.e.f. 01.04.2011(F/N).

2. The appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right to the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS.

BHAGWAN DAS, Asstt. Dir. Gen. (Admn.)

No. 3-4/2011-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 3/1/2011-CS-II(A) dated 29.03.2011, the President is pleased to appoint Shri S. K. Mongia, Private Secretary (PS) of CSSS in Department of Personnel & Training as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) in the Department of Posts in the Pay Band PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) purely on ad-hoc basis for a period upto 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier, w.e.f. 11.04.2011(F/N).

2. The appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right to the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS.

BHAGWAN DAS, Asstt. Dir. Gen. (Admn.)

The 20th May 2011

No. 3-4/2011-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 3-1/2011-CS-II (A) dated 29.03.2011, the President is pleased to appoint Shri N. Ravi Kumaran, Private Secretary (PS) of CSSS in the Ministry of Road Transport & Highways as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) in the Department of Posts in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) purely on ad-hoc basis for a period upto 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier, w.e.f. 10.05.2011 (F/N).

2. The appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right to the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS.

BHAGWAN DAS, Asstt. Director General (Admn.)

The 25th May 2011

No. 3-4/2011-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 3-1/2011-CS-II (A) dated 29.03.2011, the President is pleased to appoint Shri Baldeep Kumar, Private Secretary (PS) of CSSS in the Ministry of Water Resources as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) in the Department of Posts in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) purely on ad-hoc basis for a period upto 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier, w.e.f. 13.05.2011 (A/N).

2. The appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right to the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS.

BHAGWAN DAS, Asstt. Director General (Admn.)

New Delhi-110001, the 6th May 2011

No. 3-4/2011-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 3-1/2011-CS-II (A) dated 29.03.2011, the President is pleased to appoint Ms. Anita Chugh, Private Secretary (PS) of CSSS in the Ministry of Health & Family Welfare as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) in the Department of Posts in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) purely on ad-hoc basis for a period upto 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier, w.e.f. 02.05.2011 (F/N).

2. The appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right to the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS.

HARISH POKHRIYAL, Asstt. Director General (Admn.)

No. 3-4/2011-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 3-1/2011-CS-II (A) dated 29.03.2011, the President is pleased to appoint Shri Charan Jeet, Private Secretary (PS) of CSSS in the Ministry of Water Resources as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) in the Department of Posts in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) purely on ad-hoc basis for a period upto 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier, w.e.f. 28.04.2011 (F/N).

2. The appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right to the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular

appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS.

HARISH POKHRIYAL, Asstt. Director General (Admn.)

The 28th June 2011

No. 3-4/2011-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 3-1/2011-CS-II (A) dated 29.03.2011, the President is pleased to appoint Shri M. A. Sattar Khan, Private Secretary (PS) of CSSS in the Ministry of Youth Affairs & Sports as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) in the Department of Posts in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) purely on ad-hoc basis for a period upto 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier, w.e.f. 01.06.2011 (F/N).

2. The appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right to the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS.

HARISH POKHRIYAL, Asstt. Director General (Admn.)

The 19th July 2011

No. 3-4/2011-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 3-1/2011-CS-II (A) (pt.) dated 30.05.2011, the President is pleased to appoint Ms. Vandana Banerjee, Private Secretary (PS) of CSSS in the Department of Health & Family Welfare as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) in the Department of Posts w.e.f. 04.07.2011 (F/N) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) purely on ad-hoc basis for a period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS.

HARISH POKHRIYAL, Asstt. Director General (Admn.)

No. 3-4/2011-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 3-1/2011-CS-II (A) (pt.) dated 30.05.2011, the President is pleased to appoint Shri S. Chandrasekharan, Private Secretary (PS) of CSSS in the Department of Agriculture & Co-operation as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) in the Department of Posts w.e.f. 05.07.2011 (F/N) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) purely on ad-hoc basis for a period upto 30.09.2011 or

till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS.

HARISH POKHRIYAL, Asstt. Director General (Admn.)

No. 3-4/2011-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 3-1/2011-CS-II (A) (pt.) dated 30.05.2011, the President is pleased to appoint Shri Subrata Basak, Private Secretary (PS) of CSSS in the Ministry of Information & Broadcasting as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) in the Department of Posts w.e.f. 14.07.2011 (F/N) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) purely on ad-hoc basis for a period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS.

HARISH POKHRIYAL, Asstt. Director General (Admn.)

No. 3-4/2011-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 3-1/2011-CS-II (A) (pt.) dated 30.05.2011, the President is pleased to appoint Shri Balwant Singh, Private Secretary (PS) of CSSS in the Ministry of Health & Family Welfare as Principal Private Secretary (PPS) of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) in the Department of Posts w.e.f. 01.07.2011 (A/N) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- (Grade Pay) purely on ad-hoc basis for a period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS.

HARISH POKHRIYAL, Asstt. Director General (Admn.)

The 22nd July 2011

No. 3-1/2011-Admn.—In pursuance of DoP&T's O.M. No. 5/8/2006-CS-II dated 1st July, 2011, the President is pleased to extend the period of ad-hoc appointment of the following PAs of CSSS as PS of CSSS in the Department of Posts for

a period upto 31.12.2011 or till regular Private Secretaries of CSSS become available, whichever is earlier :—

1. Ms. Gita Devi
2. Shri C. P. Arora
3. Ms. Chander Kanta
4. Sh. M.B.C. Vinod Kumar

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer on the officers any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of PS of CSSS for regular appointment or to claim seniority in PS of Central Secretariat Stenographers Service. The ad-hoc appointment can be terminated at any point of time without assigning any reason therefor.

HARISH POKHRIYAL, Asstt. Director General (Admn.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 5th August 2011

No. E(GP) 2003/1/49—The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'B' Officer of Civil Engineering Department of Indian Railways to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers (IRSE) with effect from 14.09.2006, on the Railways mentioned as under :—

PANEL FOR 2004-05

South Eastern Railway

Shri S. B. Sahoo (Now working in East Coast Railway)

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

The 8th August 2011

No. ERB-I/2010/10/4—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.07.2011 :—

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| (i) Sh. Braj Mohan | Additional Member
(Commercial) |
| (ii) Sh. K. C. Gupta | Principal Staff Officer |
| (iii) Sh. Ashok Kumar Kshirsagar | Section Officer |
| (iv) Sh. Nathu Raikwar | Section Officer |
| (v) Smt. H. B. Dua | Section Officer |
| (vi) Sh. V. S. L. Srivastava | Assistant Traffic
Manager (FM) |
| (vii) Sh. Sunny Varughese | Private Secretary |
| (viii) Sh. S. K. Arti | Private Secretary |

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 20th July 2011

No. A-19012/6/2011-E.I—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation's O.M. No. 12016/2/2011-SSS dated 19.05.2011, the President is pleased to appoint Shri Jagdish Chand, an officer of Subordinate Statistical Service (SSS) as Statistical Investigator Grade-I in the Ministry of Road Transport & Highways on his ad-hoc promotion to the post of Statistical Investigator Grade-I in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,600/- w.e.f. 11.07.2011 (F/N) till further orders.

H. R. MEENA, Under Secy.

The 2nd August 2011

No. A-12023/1/2010-E-I—In pursuance of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training's Office Order No. 21/6/2010-CS.I (D). Vol. II dated 22.07.2011, the President is pleased to appoint Smt. S. Narendra, a Senior Selection Grade Officer of Central Secretariat Service (CSS), presently working as Director in the Ministry of Road Transport & Highways, as Joint Secretary (in-situ) in Senior Administrative Grade (SAG) in PB-4 Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 10,000/- Grade Pay in the same Ministry w.e.f. 22.7.2011 (F/N) till she is placed under the Central Staffing Scheme.

H. R. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, August 2011

No. 7/5/2009-CGWB—The President is pleased to appoint Shri Ranjeet Kumar Prasad to the post of Hydrometeorologist (Scientist-'B') (Group-'A') in the Central Ground Water Board in the scale of pay PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- w.e.f. 13.05.2011 (F/N).

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 9th August 2011

No. A-32012/03/2007-ISH.II—The President is pleased to appoint Shri Subhash Chandra to the post of Director (Safety) in the Pre-revised pay scale of Rs. 12,000—375—16,500/- in the Directorate General of Factory Advice Service & Labour Institutes, Mumbai, with effect from 27.06.2011 (F/N) and until further orders.

VANDANA SHARMA, Director

No. A-32012/02/2011-ISH.II—The President is pleased to appoint Shri Babu Lal Bairwa to the post of Director (Staff Training/Productivity) in the Pre-revised pay scale of Rs. 12,000—375—16,500/- in the Directorate General of Factory Advice Service & Labour Institutes, Mumbai, with effect from 15.06.2011 (F/N) and until further orders.

VANDANA SHARMA, Director